

15-2-06

10-2-06

1967

Register No.
He	IV/2561
15/2/06	170

16-2-06

Request-78

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

20-2-06

पत्रांक- एक-दो-136-84-90(157)/⁶ / 2005 लखनऊ दिनांक: ³⁰ जनवरी, 2006

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,

जनपद- मेरठ।

विषय: श्री कालीचरन, द्वितीय ए0सी0जे0एम0 तत्कालीन सहायक अभियोजन अधिकारी की सेवा गणना विषयक।

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक-एक-दो-136-84-90 (157)/4404/05 दिनांक-1.8.2005 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा श्री कालीचरन, तत्कालीन सहायक अभियोजन अधिकारी की सहायक अभियोजन अधिकारी पद पर नियुक्त अवधि की आहरण/वितरण अधिकारी द्वारा अभिलेखों के आधार पर सेवापुस्तिका तैयार कराकर सम्बंधित अवधि सत्यापित करते हुये डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका श्री के0सी0 श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उपलब्ध कराने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

S.O. Noman/21

उपरोक्त सम्बंध में अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुयी है। श्री श्री के0सी0 श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने पत्रांक-16548/चार-2561 प्रशा0(ए) दिनांक-22.12.2005 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा श्री कालीचरण की सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री कालीचरण, तत्कालीन सहायक अभियोजन अधिकारी मेरठ की दिनांक-1.10.1991 से 23.4.1992 तक आहरण/वितरण अधिकारी द्वारा अभिलेखों के आधार पर सेवापुस्तिका तैयार कराकर सम्बंधित अवधि सत्यापित करते हुये डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका श्री के0सी0 श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को तत्काल उपलब्ध कराकर कृत कार्यवाही से इस निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

D.R(M) 14-2-06

3

DR(M)

(सुजान वीर सिंह)
अपर निदेशक अभियोजन
उ0प्र0, लखनऊ।

14 FEB 2006

प्रतिलिपि:

- डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या: 16548/चार-2561 प्रशा0(ए) दिनांक-22.12.2005 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

DR(M)
21-2-06

DR(M)
For information
may file?

(सुजान वीर सिंह)
अपर निदेशक अभियोजन
उ0प्र0, लखनऊ।

File
w/o enclosure
21-2-2006

23/02/06

21/2/06

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक-एक-दो-136-84-90(157)/28²³/2005 लखनऊ:दिनांक: मई 2005

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
जनपद- मेरठ।

विषय: श्री कालीचरन, द्वितीय ए०सी०जे०एम० तत्कालीन सहायक अभियोजन अधिकारी की सेवा गणना विषयक।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रसंख्या: बीसी०प्रथम/2004-2005/1 दिनांक 13.4.2005 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री कालीचरन, तत्कालीन सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा दिनांक 15.4.1991 से 23.4.92 तक सहायक अभियोजन अधिकारी मेरठ के पद पर की गई सेवाओं से सम्बन्धित सेवापुस्तिका उपलब्ध न कराते हुए वेतन से सम्बन्धित आख्या प्रेषित की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में स्थिति स्पष्ट कर निदेशालय को अवगत करायें कि श्री कालीचरन, तत्कालीन सहायक अभियोजन अधिकारी की सेवापुस्तिका बनी थी अथवा नहीं? यदि सेवापुस्तिका बनी थी तो श्री कालीचरन के न्यायिक सेवा में जाने के पश्चात उसे कहाँ प्रेषित किया गया।

(सुजान वीर सिंह)
अपर निदेशक अभियोजन
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि:

- डिप्टी रजिस्टार, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या: 5-379/चार-2561 प्रशा० दिनांक 11.4.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

①

DR(LM)

02 JUL 2005

DR(LM)
For information
may file?

Akshay
19-1-2006

RS
19-9-06
P.D. Adh.

800 Pankaj
19-1-06

20/01/06

(सुजान वीर सिंह)
अपर निदेशक अभियोजन
उ०प्र०, लखनऊ।

with out encl